

M. K. Exim (India) Limited

CIN No. L63040RJ1992PLC007111

Regd. Office: G1/150, Garment Zone, E.P.I.P. Sitapura, Tonk Road, JAIPUR-302022 Tel.: +91-141-3937500/501 Fax: +91-141-3937502 Website: www.mkexim.com

E-mail: mkexim@gmail.com, mkexim@hotmail.com, info@mkexim.com

Date: 29.05.2025

To,
BSE Limited
Department of Corporate Services
P J Towers, Dalal Street,
Mumbai—400 001

Subject: <u>Newspaper Advertisement of Audited Standalone Financial Results for the Ouarter and Financial Year ended 31st March, 2025</u>

Scrip Code: 538890 M.K. Exim(I) Limited

Dear Sir/Madam,

This is to inform you that in compliance with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copies of Newspaper Advertisement clippings of Audited Standalone Financial Results for the Quarter and Financial Year ended 31st March, 2025, approved in the Meeting of Board of Directors held on Tuesday 27th May, 2025 along with the QR code published in Financial Express (English) and Business Remedies (Hindi) edition.

The full format of the Financial Results shall be available on the website of the BSE i.e. www.bseindia.com and on Company's website www.mkexim.com.

We request you to kindly take the same on record.

Thanking You,

Yours Faithfully, For M.K. Exim (India) Ltd

Manish Murlidhar Dialani

Managing Director DIN: 05201121

Encl: as above

(Rs. in Lakhs)

Ended

Ended

FINANCIAL EXPRESS

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK Regional Office:- GMTT Building Plot No. D-7, Sector-3 Noida (UP) Branches at: Dausa (Rajasthan)

WITHDRAWAL **E-AUCTION/ SALE NOTICE** This has reference to the E-Auction Sale Notice published on 22.04.2025 in Financial Express & Jansatta. E-Auction scheduled on 28.05.2025. In this regard, the Bank has WITHDRAWN the auction sale of Plot No. L-632, Khasra No. 2088, Shikshak Colony, Gupteshwar Road, Dausa, Rajasthan in Account of Mamlesh Kanwar W/o Dashrath Singh Rajput & Dashrath Singh Rajput S/o Sedu Singh Rajput. The public in general is

informed accordingly. The terms & conditions for the rest properties will remain the same as earlier. Date: 28.05.2025

Authorised Officer Place: Noida

Sarva Haryana Gramin Bank सर्वे हरियाणा ग्रामीण बैंक (Govt. of India Undertaking) (भारत सरकार का उपक्रम) प्रायोजक: पंजाब नेशनल बैंक

Sponsored by: Punjab National Bank REGIONAL OFFICE: GURGAON Pargati Bhawan, Plot No. 36P, Sector-44, Gurgaon- 122002

Sarva Haryana Gramin Bank invites proposal for new premise on Lease/Rent for its Branch. Interested person(s)/party(ies) having suitable commercial place/premises may submit their proposal with full details with copy of technical and financial bid in separate envelope after that keep both in third envelope marked as "Proposal for Bank Premises" to the Regional Office, Gurgaon, All proposals must reach to the Regional Office, Gurgaon by 05.00 PM on or before 11.06.2025. Bank reserves its right to reject any or all the proposals without citing any reason. Corrections/Corrigendum, if any, will be placed on Bank website only. SI. Name District Required Area

ADVERTISEMENT FOR NEW PREMISES

No of Place in Sq. Ft. Regional Office 1. Hayatpur Gurgaon 800-1200 Sq.Ft. (+-5%) The Regional Manager Sarva Haryana Gramin Bank, Regional Office: Gurgaon, Plot No. 36P, Sector 44 Institutional Area, Gurgaon-122002, Mobile: 97113-90006, 99112-77810

REGIONAL MANAGER

PHYSICAL POSSESSION NOTICE

Branch Office: ICICI Bank Limited Shal Tower Plot No-23, New Rohtak Road OCCI Bank Branch Office: ICICI Bank Limite Karol Bagh New Delhi-110005

The Authorised ICICI Bank Officer under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued Demand Notices to the borrower(s) mentioned below, to repay the amount mentioned in the Notice within 60 days from the date of receipt of the said Notice.

Having failed to repay the amount, the Notice is issued to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described below, by exercising powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-mentioned dates. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property. Any dealings with the property will be subject to charges of ICICI Bank Limited.

Sr. No.	Name of the Borrower(s)/ Loan Account Number	Description of Property/ Date of Physical Possession	Date of Demand Notice/ Amount in Demand Notice (Rs)	Name of Branch
5000	Umang Dhall/ Utkarsh Agarwal/ TBMDB00006579229/ LBMDB00006589368	Pvt. Plot No. 121, Khasra No. 726, Plot Situated In Mauza Kazipura, Moradabad 244001/23-May-25	December 21,2024 Rs. 27,24,855.72/-	Moradabad
	Hasan Raza/ Irshad Hussain/ TBMDB00006367165/ LBMDB00006432113	Plot/ Gata No. 370/4, Situated At Bhadaura, Tehsil And Distt. Moradabad Uttar Pradesh- 244001/23-May-25	April 10,2024 Rs. 18,78,794/-	Moradabad

The above-mentioned borrowers(s)/guarantors(s) is/are hereby issued a 30 day Notice to repay the amount, else the mortgaged properties will be sold after 30 days from the date of publishing this Notice, as per the provisions under Rules 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002. Date: May 28, 2025 Sincerely Authorised Officer,

Place: Moradabad For ICICI Bank Ltd.

PUBLIC NOTICE

PICICI Bank Branch Office: ICICI Bank Ltd., Plot No. 23, Shal Tower, 3rd Floor, New Rohtak Road, Karol Bagh, New Delhi- 110005

The following borrower(s) has/have defaulted in the repayment of principal and interest towards the Loan facility(ies) availed from ICICI Bank. The Loan(s) has/have been classified as Non-Performing Asset(s) (NPA). A Notice was issued to them under Section 13(2) of the Securitisation and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, at their last known addresses. However, it has not been served and are therefore being notified by way of this Public Notice.

Sr. No.	Name of the Borrower/ Co- Borrower/ Guarantor/ (Loan Account Number) & Address	Description of Secured Asset to be enforced	Outstanding as on Date of Notice	NPA Date
1,	Jitendra Kumar Yadav/ Sushma Yadav/C-15 Meerut Meenakshi Puram, Mawana Road, Meerut- 250001/ A/c:- TBMRT00006818262/ LBMRT00006839082	House No. C-15, Block C Meenakshipuram Colony Mawana Road, Meerut- 250001	05-05-2025/ Rs. 30,94,953/- Rs. 1,78,169/-	28/02/ 2025
2.	Geeta./ Ravi Raj/05, Garhi Jansath, Muzaffarnagar, Near Bijlighar, Uttar Pradesh Muzaffarnagar- 251314/ A/c:- LBMRT00005262804	Flat of Three Storey Building Built On Northern Part of Plot No.31(Ground Floor), Gangotri Colony, Pocket-A, (Developed By Mundra Cooperative Housing Society), Situated At Revenue Village Roshanpur Daurli, Pargana-daurala, Tehsil-Sardhana, District-meerut, Uttar Pradesh 250001	07-05-2025 Rs. 24,59,424.99/-	06/03/ 2025
3.	Kunal Kaushik/ Shivam Kaushik/ House No.234, Jattiwara, Uttar Pradesh Meerut- 250002/ A/c:- LBMRT00005225080	Residental Flat Built On Plot No.69, Ground Floor, Khasra No.120, Sitauted At Mansarovar Garden, Revenue Village- Mohkampur, Meerut, Uttar Pradesh- 250001	07-05-2025 Rs. 21,07,940/-	03/02/ 2025

applicable) is/are advised to make the outstanding payment within 60 days from the date of publishing this Notice. Else, further steps will be taken as per the provisions of the Securitisation and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002. Date: May 28, 2025, Place: Bareilly Sincerely Authorised Officer, For ICICI Bank Ltd.

No.

IV

VII

VIII

FRICK INDIA LIMITED

CIN: L74899HR1962PLC002618

Particulars

Registered Office: 21.5 KM, Main Mathura Road, Faridabad, 121003

Telephone No. 01292275691-94 Email: fbd@frickmail.com Website: www.frickweb.com IDALONE AUDITED FINANCIAL DESUITS FOR THE OHARTER AND YEAR ENDER 24.03.203

TANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31.03.2025	
(Rs. in	Lakhs)

Quarter Ended

1,046.05

599.98

17.49

17.49

1.345.51

60.00

22.34

22.34

4,220.35

27,311.77

60.00

70.54

70.54

3,471.92

599.98

58.06

58.06

30,219.71

	31/03/2025 (Audited)	31/12/2024 (Unaudited)	31/03/2024 (Audited)	31/03/2025 (Audited)	31/03/2024 (Audited)
Revenue					
Revenue from Operations	13,565.14	12,512.36	15,137.78	43,694.44	48,128.91
Other Income	129.63	245.14	356.14	1,068.15	1,239.84
Total Income (I+II)	13,694.77	12,757.50	15,493.92	44,762.59	49,368.75
Expenses					
Cost of Materials Consumed	7,597.35	8,118.09	9,853.73	28,765.51	32,654.48
Changes in inventories of finished goods, work-in-progress					
and Stock-in-Trade	1,263.79	588.04	1,043.08	577.95	980.88
Employees Benefit Expenses	1,826.60	1,529.10	1,722.98	6,327.33	5,989.70
Finance Cost	78.63	70.00	95.84	264.21	325.86
Depreciation & Amortisation Expense	113.49	96.27	71.49	333.62	238.39
Other expenses	1,224.24	986.42	1,282.06	3,875.31	3,886.73
Total Expenses (IV)	12,104.10	11,387.92	14,069.18	40,143.93	44,076.04
Profit before tax (III-IV)	1,590.67	1,369.58	1,424.74	4,618.66	5,292.71
Tax Expenses					
a) Current tax	413.29	378.51	354.27	1,215.00	1,339.40
b) Deferred tax	(44.54)	(57.99)	(13.83)	(70.80)	(22.91)
c) Income tax for earlier years	(9.22)	-	(256.13)	(9.22)	(256.13)
Total taxes (VI)	359.53	320.52	84.31	1,134.98	1,060.36
Profit after tax for the period (V-VI)	1,231.14	1,049.06	1,340.43	3,483.68	4,232.35
Other Comprehensive Income (net of taxes)					
(A) (i) Items that will not be Reclassified to Profit or Loss:	(3.69)	(4.01)	(16.03)	(15.71)	(16.03)
(ii) Income tax relating to items that will not be					
reclassified to Profit or Loss:	0.92	1.00	26.85	3.95	4.03
(B) (i) Items that will be Reclassified to Profit or Loss:	-	-	(5.74)	-	-
(ii) Income tax relating to items that will not be					
reclassified to Profit or Loss:	-	-	-	-	-
Total Other Comprehensive Income (VIII)	(2.77)	(3.01)	5.08	(11.76)	(12.00)

b) Diluted EPS - Not annualised Notes:

Date: 27.05.2025

Place: Delhi

X

Other Equity

The above results were reviewed by the Audit Committee and have been approved and taken on record by the Board of Directors at its respective meetings held on 27.05.2025 and a limited review of the same have been carried out by the statutory auditors of the

1,228.37

599.98

20.52

20.52

The Company is primarily engaged in the business of manufacture, supply and execution of Industrial Refrigeration and Air conditioning systems. As the basic nature of these activities is governed by the same set of risks and returns, therefore, has only one reportable segment in according to IND AS 108 "Operating Segments".

Total Comprehensive Income for the period (VII+VIII)

Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)

Earnings Per Share (EPS) (Rs./Share)

the proportion of Mayekawa- 55% and FIL- 45%.

a) Basic EPS - Not annualised

The shareholders on 17th September 2024 through postal ballot has approved the increase in authorised share capital of the company from ₹ 300.00 lakhs (divided into 30,00,000 nos. equity shares of ₹ 10 each to ₹ 2,000.00 lakhs divided into 2,00,00,000 nos. equity shares of ₹ 10 each) and also approved the issue of bonus shares by way of capitalisation of General Reserve in the ratio 9:1. Accordingly on 4th October 2024, the Board of Directors of the company had allotted 53,99,775 nos. equity shares having face value of ₹ 10 each against 5.99.975 nos. of total equity shares existing as fully paid up in the Company and post issue, the issued.

The Board of Directors have recommended a dividend of viz. Rs.0.40/-per share (Previous Year Rs. 4.00 per share i.e. 40% of face value) subject to the approval of shareholders in the ensuing annual general meeting.

subscribed and paid up share capital of the Company ₹ 599.98 lakhs (divided into 59,99,750 nos. equity Shares of ₹ 10 each).

During the quarter, Frick India Limited (FIL) has entered into joint venture agreement with M/s Mayekawa Mfg. Co. Ltd., Japan (Mayekawa) on January 13, 2025 and incorporated a new company Mycom-FIL India Private Limited (a joint Venture entity) (JV Company) on 27th February 2025. As on 31st March 2025 the total paid equity share capital of JV company is Rs1,000.00 lakhs, in

The figures for the previous periods/year have been regrouped / rearranged, wherever necessary. The figures for the quarter ended 31st March 2025 and 31st March 2024 are the balancing figures between the audited figures in respect of full financial year and reviewed year-to-date figures upto the third quarter of the financial year.

For and on behalf of Board Frick India Limited

Sd/-Jasmohan Singh **Chairman & Managing Director** DIN-00383412

Year Ended

NORTHERN RAILWAY Corrigendum Reference: NIT published on date:

14.05.2025 Notice of e-Auction for leasing of parcel space of R1 SLR compartments in LHB trains from various stations over Delhi Division which is scheduled to be held (at IREPS portal) during 29.05.2025 to 11.06.2025 which was published in various English & Hindi newspapers on 14.05.2025 is hereby withdrawn (due to administrative reasons). 1580/2025 SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

Summons For Publication Summons For Settlement of Isues (0.5.rr.1,5.) Before the Commercial Court at Kasna, Court No. 1, Gautam Budh Nagar Misc. Civil Case No. 187/2023

OS No. 698 of 2019 Canara Bank, 25-26, III-N, Nehru Place, Ambedka Road, Ghaziabad,

Shri Arun Garg S/o Shri Kishore Kumar, R/o Second -C-178/B, Nehru Nagar, Ghaziabad, U.P. Whereas Canara Bank filed an application under Order 9 Rule 9 R/W Section 151 CPC. You are nereby summoned to appear in this Court in person, or by a pleader duly instructed, and able to answer all material questions relating to the application, or who shall be accompanied by some person able to answer all such questions, on the 05.08.2025, at 10

VERSUS

O'clock in the Court, to answer the claim; and further you are hereby directed to file on that day a reply of vour defense. ake notice that, in default of your appearance on the day before mentioned, the application will be heard nd determined in your absence. Given under my hand and the seal of the Court. this

20th day of May 2025.

Munsirim / Reader Commercial Court at Kasna, Court No. 1 Gautam Budh Nagar

Name of corporate debtor

is incorporated / registered

espect of corporate debtor

nterim resolution professional

resolution process

with the Board

resolution professional

resolution professional

14. (a) Relevant Forms and

Date: 27 May 2025

Name of corporate debtor

corporate debtor

corporate debtor

respect of corporate debtor

insolvency resolution process

resolution professional.

registered with the Board

esolution professional

Names

Date: 27 May 2025

Place: New Delhi

for each class)

(a) Relevant Forms and

(b) Details of

clause (b) of sub-section (6A) of

section 21, ascertained by the

Professionals identified to act as

Authorised Representative of

creditors in a class (Three names

representatives are available at:

nterim resolution professional

debtor is incorporated / registered

Liability Identification No. of

Date of incorporation of corporate 15/11/2001

Place: New Delhi

(b) Details of authorized

Liability Identification No. of corporate

Date of incorporation of corporate 19/10/2004

FORM A

PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India

(Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF

CONCORD BUILDWELL PRIVATE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS

Address of the registered office and Regd. Office as per MCA Master data: D-109.

principal office (if any) of corporate Pocket D, Mayur Vihar, Phase II, East Delhi, Delhi India, 110091

Insolvency commencement date in 18 March 2025 (Copy of order received on 26 May

Estimated date of closure of insolvency 14 September 2025 (180* day calculated from

Address and e-mail of the interim Address: D-54. First Floor, Defence Colony, New

Address and e-mail to be used for Address: C- 621, 6th Floor, Tower C, IThum, Plot

correspondence with the interim No. A-40, Sector 62, Noida, UP - 201301

Last date for submission of claims 09 June 2025 (14 days calculated from 26 May 2025)

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, New Delhi Bench-II has ordered

the commencement of a corporate insolvency resolution process of the CONCORD BUILDWELL

PRIVATE LIMITED on 18 March 2025 (A copy of order has been received vide email on 26 May

The creditors of CONCORD BUILDWELL PRIVATE LIMITED are hereby called upon to submit

their claims with proof on or before 09 June 2025 (14 days from 26 May 2025) to the interim

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other

A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice

of authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No. 13 to act as authorised representative of the class [specify class] in Form CA. – Not Applicable

FORM A

PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India

(Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF

HONEY BUILDERS LIMITED

RELEVANT PARTICULARS

Address of the registered office Regd. Office as per MCA Master data: D-109, Pocket

and principal office (if any) of D, Mayur Vihar, Phase II, East Delhi, Delhi, India

Insolvency commencement date in 18 March 2025 (Copy of order received on 26 May

Estimated date of closure of 14 September 2025 (1809 day calculated from

Address and e-mail of the interim Address: D-54, First Floor, Defence Colony, New Delhi

Address and e-mail to be used for Address: C- 621, 6th Floor, Tower C. IThum, Plot No.

Last date for submission of claims | 09 June 2025 (14 days calculated from 26 May 2025)

Email: sapan10@yahoo.com

Email id: cirp.honeybuilders@gmail.com

Web link: https://lbbi.gov.in/en/home/downloads

110086

as interim resolution professional | IBBI/IPA-002/IP-N00315/2017-2018/10903.

as 110024

correspondence with the interim A-40, Sector 62, Noida, UP - 201301

Insolvency Not Applicable

Authority under which corporate Registrar of Companies-ROC Delhi

Corporate Identity No. /- Limited U45203DL2001PLC113154

Name and registration number of Name: Sapan Mohan Garg

the insolvency professional acting IBBI Reg. No.

Classes of creditors, if any, under Not Applicable

HONEY BUILDERS LIMITED

Other Office as per NCLT order: 224, Second Floor,

Somdatt Chamber 9, Bhikaji Cama Place, New Delhi

insolvency commencement date i.e. from 18 March

creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

Email: sapan10@yahoo.com

Authority under which corporate debtor Registrar of Companies- ROC Delhi

Corporate Identity No. / Limited U45201DL2004PTC130093

Name and registration number of the Name: Sapan Mohan Garg

insolvency professional acting as IBBI Reg. No.

resolution professional, as registered Delhi 110024

Classes of creditors, if any, under Not Applicable

Names of Insolvency Professionals Not Applicable

resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim

identified to act as Authorised Representative of creditors in a class

Three names for each class)

representatives are available at

CONCORD BUILDWELL PRIVATE LIMITED

Other Office as per NCLT order, 224, Second Floor Somdatt Chamber 9, Bhikaji Cama Place, New Delhi

insolvency commencement date i.e. from 18 March

IBBI/IPA-002/IP-N00315/2017-2018/10903

Email id: cirp.concordbuildwell@gmail.com

Web link: https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

Physical Address: Not Applicable



UMMEED HOUSING FINANCE PVT. LTD
Registered office at: Unit 2009-14, 20th Floor, Tower – 2, Magnum
Global Park Golf Course Extension Road, Sect-58, Gurugram
(Haryana)-122002
CIN: U64990HR2016PTC057984

APPENDIX IV [See rule 8(1)] POSSESSION NOTICE

PVT. LTD under the "Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security interest (Act, 2002(54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with [rule 3] of the security interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notices to the Borrower/s as details herein under, calling upon the respective Borrowersto repay the amount mentioned in the notice with all costs, charges and expenses till actual date of payment within 60 days from the date of the receipt of the said notice The said Borrower/Co-borrower/Guarantor/Mortgagor having failed to repay the amount notice is hereby given to the borrower//Co-borrower/Guarantor/Mortgagor and the public n general that the undersigned has taken **Symbolic Possession** of the property described herein below in exercise the powers conferred on him under sub-section (4) of section 13

Whereas, the undersigned being the authorized officer of the **UMMEED HOUSING FINANCE**

of the said act read with rule 8 of the security interest Enforcement Rules, 2002 on this date. The Borrower/Co-borrower/Guarantor/Mortgagor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and dealings with the property will be subject to the charge of the **UMMEED HOUSING FINANCE PVT. LTD.** For the amount specified therein with further interest, costs and Chagares from respective dates thereon until full payment. The Borrower's attention is invited to provision of sub section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. Details of the Borrowers, Co-borrowers and Guarantors, Securities, Outstanding Dues, Demand Notice sent under Section 13(2) and Amount claimed thereunder and Date of

Possession is given as under: Name And Address Of The Borrower, Co Borrower | Demand Notice **Guarantor Loan Account No. And Loan Amount** Date **Possession Date** 12-MAR-2025 27-MAY-2025

) Paramjeet S/o Khajan Singh (Borrower) Mahendri W/o Prem Jeet (Co-Borrower) Amount Due In Rs. Khajan Singh S/o Rajpal (Co-Borrower) Rs.955,696/-(Rupees Nine Lacs Sagar S/o Premieet (Co-Borrower) Fifty-Five Thousand Six Hundred All Above Residing At- House No. 233, Mahu Pati, Deeghot (135), Palwal, Haryana-121105 Ninety Six Only) As On 12-Mar-2025 + Further Interest And Other Loan No.LXGGN04123-240033600 Charges From 13-Mar-2025 Loan Agreement Date-08-02-2024 Loan Amt. Rs.1100,000/-

DETAILS OF THE SECURED ASSET: All That Part And Parcel Of Residentail Plot Area Measuring 7.58 (229 Sq. Yrds.) Out Of Khewat/Khata No 874/881 & Khasra No 335(1-2 & Khasra No 336(3-9) Sitauted At Waka Deeghot, Tehsil Hodal, District -Palwal, Haryana Bounded As- East- Rákba Harkhayal West- Rakba Jaisingh & Kishor, North- Rákba Satbi And Dilip, South- Rasta

Date: 28.05.2025 Authorized Officer, Mr. Gaurav Tripathi Mobile- 965005570 **Úmmeed Housing Finance Pvt. Ltd** Place: Gurugram, Haryana

Particulars

Place: Jaipur

Date: 27.05.2025

M.K. EXIM (INDIA) LIMITED Regd. Office: G-1/150, Garment Zone, E.P.I.P., Sitapura, Tonk Road, Jaipur -302022

CIN NO.: L63040RJ1992PLC007111 Email:mkexim@mkexim.com, website: www.mkexim.com, TEL. NO. 0141-3937501

EXTRACT OF THE STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025

Ended

Ended

	Ended	Enged	Enged	Ended	Ended
	31.03,2025	30.12.2024	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
-	Audited	Un-audited	Audited	Audited	Audited
Total Income from Operations	2797.34	2422.53	2156.68	9494.93	9433.13
Net Profit/(Loss) for the period (Before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	522.13	743.97	424.26	2460.88	2063.87
Net Profit/(Loss) for the period Before tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items)	522,13	743.97	424.26	2460.88	2063.87
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	347.96	556.67	305.10	1798.71	1531.80
Total comprhensive income for the period [comprising profit / (loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	347.96	556.67	305.10	1798.71	1531.80
Equity Share Capital	4036.73	4036.73	4036.73	4036.73	4036.73
Reserves (Excluding Revaluation Reserve as show in the Balance Sheet of Previous Year)	8	83	1/3	4111.22	3924.99
Earning Per Share (of face value Rs. 10/-each) (for continuing and discontinued operations)					
Basic:	0.86	1.38	0.76	4.46	3.79
Diluted:	0.86	1.38	0.76	4.46	3,79
NOTE:- 1. The above Audited Standalone Fina	incial Results	have been i	reviewed by	the Audit Co	mmittee and

Approved by the Board of Directors of the Company at their Meeting held on Tuesday, 27th May, 2025. These results have been audited by Statutory Auditors of the Company and have expressed an unqualified audit opinion 2. The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchages under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Standalone Finacial Results are available on the website of Bombay Stock Exchange at http://www.bseindia.com and also on the Company's website at http://www.mkexim.com. The same can also be accessed by scanning the By Order of the Board

For M.K. EXIM (INDIA) LTD. sd/-Manish Murlidhar Dialani (Managing Director)

Octavius'

OCTAVIUS PLANTATIONS LIMITED

Registered Office: E-40/3, Okhla Industrial Area Phase-II, New Delhi-110020 Email: www.octaviusplantations.com | CIN: L65910DL1984PLC018466 | PAN-AAACR1502R **EXTRACT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS** FOR THE QUARTER & YEAR ENDED 31ST MARCH 2025

Amount in Lacs

S. NO.	Particulars	Quarter Ended 31.03.2025	Quarter Ended 31.12.2024	Quarter Ended 31.03.2024	Year Ended 31.03.2025	Year Ended 31.03.2024
		Audited	Un-audited	Un-Audited	Audited	Audited
1	Total income from operations	496.11	502.45	1,128.80	2,875.58	2,445.14
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	25.24	31.63	61.45	95.26	195.56
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)	25.24	31.63	61.45	95.26	195.56
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)	23,53	28.74	63.43	87.01	178.08
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	24.11	28.60	63.16	87.11	177.44
6	Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs 10/-)	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0
7	Earning Per Share (of Rs 10/- each) Basic and diluted (not annualised)	0.78	0.96	2.11	2.90	5.94
Not		3,00,00	85185	A91340000.11	353886	(2.828

The above is an extract of the detailed format of result for Financial year ended March 31, 2025 filed with stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the said results are available on the website of BSE Limited at www.bseindia.com as well as on the company's website at (www.octaviusplantations.com)



By order of the Board For Octavius Plantations Limited

> Raj Kumar Jain Whole Time Director DIN: 03505168

> > (Rs. in Lakhs)

Date: 27.05.2025

Place: Delhi

Sapan Mohan Garg

Interim Resolution Professional

Email Id: sapan10@yahoo.com

AFA valid up to 31-Dec-2025

In the matter of Concord Buildwell Private Limited

Registered Address and email id with IBBI

Email id: cirp.concordbuildwell@gmail.com

IBBI Regn. No.: IBBI/IPA/-002/IP-N00315/2017-18/10903

Tower C, IThum, Plot No. A-40, Sector 62, Noida, UP - 201301

Address and e-mail to be used for correspondence: C- 621, 6th Floor,

D-54, 1st Floor, Defence Colony, New Delhi - 110024

FRICK INDIA LIMITED

CIN: L74899HR1962PLC002618 Registered Office: 21.5 KM, Main Mathura Road, Faridabad, 121003 Telephone No. 01292275691-94 Email: fbd@frickmail.com Website: www.frickweb.com

CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31.03.2025

S. **Particulars** Quarter Ended Year Ended No. 31/03/2025 31/03/2025 (Audited) (Audited) Revenue from Operations 13,565.14 43,694.44 129.63 1,068.15 Other Income Total Income (I+II) 13,694,77 44,762.59 IV **Expenses** Cost of Materials Consumed 7,597.35 28,765.51 Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and Stock-in-Trade 1,263.79 577.95 **Employees Benefit Expenses** 1,826.60 6,327.33 264.21 78.63 **Finance Cost** 113.49 333.62 Depreciation & Amortisation Expense 1,224.24 3,875.31 Other expenses 12,104.10 40,143.93 Total Expenses (IV) Profit before share of (loss) of a joint venture and tax (III-IV) 1,590.67 4,618.66 Share of (loss) of a joint venture (VI) (18.10)(18.10)Profit before tax (V+VI) 1,572.57 4,600.56 Tax Expenses a) Current tax 413.29 1,215.00 b) Deferred tax (70.80)(44.54)c) Income tax for earlier years (9.22)(9.22)359.53 1,134.98 Total taxes (VII) Profit after tax for the period (VII-VIII) 1.213.04 3,465.58 Other Comprehensive Income (net of taxes) (3.69)(15.71)(A) (i) Items that will not be Reclassified to Profit or Loss: 0.92 3.95 (ii) Income tax relating to items that will not be reclassified to Profit or Loss: (B) (i) Items that will be Reclassified to Profit or Loss: (ii) Income tax relating to items that will not be reclassified to Profit or Loss: (2.77)**Total Other Comprehensive Income (IX)** (11.76)Total Comprehensive Income for the period (VIII+IX) 3,453.82 1,210.27 Other Equity 30,201.61 l XI XII 599.98 Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each) 599.98 Earnings Per Share (EPS) (Rs./Share) 20.22 a) Basic EPS - Not annualised 57.76 b) Diluted EPS - Not annualised 20.22 57.76 Notes: The above results were reviewed by the Audit Committee and have been approved and taken on record by the Board of Directors at its

respective meetings held on 27.05.2025 and a limited review of the same have been carried out by the statutory auditors of the

The Company is primarily engaged in the business of manufacture, supply and execution of Industrial Refrigeration and Air conditioning systems. As the basic nature of these activities is governed by the same set of risks and returns, therefore, has only one reportable segment in according to IND AS 108 "Operating Segments".

The shareholders on 17th September 2024 through postal ballot has approved the increase in authorised share capital of the company from ₹ 300.00 lakhs (divided into 30,00,000 nos. equity shares of ₹ 10 each to ₹ 2,000.00 lakhs divided into 2,00,00,000 nos. equity shares of ₹ 10 each) and also approved the issue of bonus shares by way of capitalisation of General Reserve in the ratio 9:1. Accordingly on 4th October 2024, the Board of Directors of the company had allotted 53,99,775 nos. equity shares having face value of ₹ 10 each against 5,99,975 nos. of total equity shares existing as fully paid up in the Company and post issue, the issued, subscribed and paid up share capital of the Company ₹ 599.98 lakhs (divided into 59,99,750 nos. equity Shares of ₹ 10 each).

value) subject to the approval of shareholders in the ensuing annual general meeting.

During the guarter, Frick India Limited (FIL) has entered into joint venture agreement with M/s Mayekawa Mfg. Co. Ltd., Japan (Mayekawa) on January 13, 2025 and incorporated a new company Mycom-FIL India Private Limited (a joint Venture entity) (JV Company) on 27th February 2025. As on 31st March 2025 the total paid equity share capital of JV company is Rs1,000.00 lakhs, in the proportion of Mayekawa- 55% and FIL- 45%. Considering the above, the Company has prepared its consolidated financial results for the quarter and year ended 31st March 2025. Thus, previous period/year consolidated figures are not given as there was on joint venture in those periods.

The Board of Directors have recommended a dividend of viz. Rs.0.40/-per share (Previous Year Rs. 4.00 per share i.e. 40% of face

For and on behalf of Board Frick India Limited Jasmohan Singh **Chairman & Managing Director**

epaper.financialexpress.com

Date: 27.05.2025

Place: Delhi

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, New Delhi Bench-II has ordered he commencement of a corporate insolvency resolution process of the HONEY BUILDERS LIMITED on 18 March 2025 (Acopy of order has been received vide email on 26 May 2025). The creditors of HONEY BUILDERS LIMITED, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 09 June 2025 (14 days from 26 May 2025) to the interim resolution

authorized Physical Address: Not Applicable

professional at the address mentioned against entry No. 10. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No. 13 to act as authorised representative of the class [specify class] in Form CA. – Not Applicable

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Sapan Mohan Garg Interim Resolution Professional In the matter of Honey Builders Limited IBBI Regn. No.: IBBI/IPA/-002/IP-N00315/2017-18/10903 Registered Address and email id with IBBI D-54, 1st Floor, Defence Colony, New Delhi - 110024 Email Id: sapan10@yahoo.com; AFA valid up to 31-Dec-2025

Address and e-mail to be used for correspondence: C- 621, 6th Floor, Tower C, IThum, Plot No. A-40, Sector 62, Noida, UP - 201301 Email id: cirp.honeybuilders@gmail.com

New Delhi

DIN - 00383412

तिमाही आधार पर कंपनी

उत्तर गारो हिल्स में 516 करोड़ रूपये की जलवायु अनुकूल समुदाय आधारित जल संचयन परियोजना का शुभारंभ यह परियोजना राज्य के 12 जिलों में 533 जल संचयन संरचनाओं के निर्माण को बेगा समर्थन

बिज़नेस रेमेड़ीज/नई दिल्ली

मेघालय में जल सुरक्षा को बढ़ाने और समुदाय की जलवायु सहनशीलता को मजबूत करने के उद्देश्य से, कॉनराड के संगमा, मुख्यमंत्री ने उत्तर गारो हिल्स के मेंडिपाथर कॉलेज ग्राउंड में एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित जलवायु अनुकूल समुदाय आधारित जल संचयन आधारित परियोजना' (CACbWHP ADB) का शभारंभ किया। यह गरियोजना मृदा एवं जल संरक्षण विभाग के अंतर्गत लागू की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उत्तर गारो हिल्स के दूरदराज क्षेत्रों का दौरा किया ताकि जमीनी स्तर पर स्थितियों को समझा जा सके

और नागरिकों से जुड़ा जा सके। इस परियोजना के तहत राज्य के सभी 12 जिलों में जलवायु आंकड़ों के संग्रहण और निगरानी के लिए 50 मौसम केंद्र और सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियाँ स्थापित की जाएंगी। गरियोजना 12 जिलों में कुल **५३३ जल मंचयन मंग्रचनाओं** के निर्माण में सहयोग करेगी। ये संरचनाएँ भारी वर्षा और मानसून के दौरान अचानक आने वाली बाढ़ को समाहित करने और प्रबंधन करने हेतु जलवायु सहनशील डिज़ाइन पर आधारित होंगी। यह परियोजना,



लागत कुल मिलियन (516 करोड रुपये) भंद्रारण की क्षमता विकस्तित 12,500 हेक्टेयर जलग्रहण क्षेत्रों की सुरक्षा और लगभग 3,297 हेक्टेयर कमांड एरिया को विश्वसनीय सिंचाई सुविधा में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखती है।

इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में कॉनराड के संगमा, मुख्यमंत्री; मार्कुईस एन. मराक, मंत्री, मृदा एवं जल बह पॉल संरक्षण विभाग; लिंगदोह माननीय मंत्री सामाजिक कल्याण विभागः मार्थन जे. संगमा, माननीय विधायक, मेंडिपाथर निर्वाचन क्षेत्र; रुपर्ट मोमिन, माननीय विधायक, खारकुट्टा निर्वाचन क्षेत्र शामिल थे। प्रमुख क्षेत्र शामिल थे। प्रमुख अधिकारियों में प्रवीण बक्शी, आईएएस, आयुक्त एवं सचिव, सामाजिक कल्याण विभाग; डॉ. जोराम बेडा, आईएएस, आयुक्त एवं सचिव, मृदा एवं जल

सरकार; और डॉ. अभिषेक आईएएस, उपायुक्त, उत्तर गारो हिल्म शामिल थे।

मख्यमंत्री ने बताया कि यह परियोजना मेघालय राज्य जल नीति 2019 के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य राज्य के जल संसाधनों का सतत विकास, प्रबंधन और उपयोग एक सहभागी दृष्टिकोण से सुनिश्चित करना है. जिससे संवेदनशीलता को कम किया जा सके और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा मिल सके।

इस अवसर पर 'मेघ एडैप्ट परियोजना की भी शुरुआत की गई, जिसकी कुल लागत 47.19 करोड़ रुपये है। यह परियोजना जलवायु अनुकूल समुदाय आधारित जल संचयन योजना का ही एक भाग है, जिसे मुदा एवं जल संरक्षण विभाग मृद्धा एवं जल सरक्षण विभाग द्वारा वनीकरण, मौजूदा वनों के संरक्षण और कृषि भूमि के विकास के लिए लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी



बताया कि इस परियोजना के और कहा कि यदि जल औ माध्यम से समदाय और सरकार पर्यावरण का संरक्षण नहीं किया मिलकर वनों की रक्षा करेंगे गया, तो यह लक्ष्य प्राप्त करना खराब हो चुकी भूमि को पुनर्जीवित करेंगे, पारिस्थितिकी कठिन होगा। उन्होंने जलवायु योजना अनुकूल तंत्र की सेहत सुधारेंगे, जलग्रहण पीएमजीएसवाई कार्यक्रम के क्षेत्रों का पुनरुद्धार करेंगे और महत्व को रेखांकित किया। राज्यभर में हरित आवरण को उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह परियोजना किसानों को कम वर्षा बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, कि मैंने आप सभी में वही के समय में सहायता देगी और हर जिले को इसका लाभ प्रतिबद्धता और ईमानदारी देखी है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम जो भी कार्य मिलेगा। उन्होंने बताया कि लगभग 50,000 परिवारों को राज्य और जनता के लिए करेंगे इस परियोजना से लाभ मिलेगा उसमें मैं अपनी पूरी शक्ति और और 82 प्रतिशत जल जीवन समर्पण दूंगा। हम सब मिलकर राज्य को बदलेंगे और आगे ले मिशन (JJM) के कार्य पूरे हो चुके हैं। उन्होंने यह भी आश्वस्त जाएंगे। मार्कुईस एन. मराक ने मुख्यमंत्री की राज्य के समग्र किया कि भूमि अधिग्रहण की चुनौतियों के बावजूद शेष कार्य विकास के प्रति दृष्टि को रेखांकित करते हुए कहा कि उनका लक्ष्य है कि वर्ष 2028 को अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। डॉ. जोराम बेडा, आईएएस,

आयुक्त एवं सचिव, मृदा एव जल संरक्षण विभाग, मेघालय जित सरकार विभाग, मवातम सरकार ने अपने मुख्य भाषण में इस परियोजना के शुभारंभ को विश्व पर्यावरण दिवस से पहले एक उपयुक्त पहल बताया।

क्षेत्र में इस परियोजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में जलग्रहण क्षेत्र शामिल किए गए हैं -उत्तर गारो त्स में 53, पश्चिम गारो हिल्स में 34, पूर्व गारो हिल्स में 44, दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स में 39 और दक्षिण गारो हिल्स में 32। समदाय आधारित प्रयास है और इसका एक प्रमुख घटक 'मेघा एडैप्ट पे' योजना है, जिसके तहत प्रति जलग्रहण समिति या ग्राम रोजगार परिषद को लगभग 10 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि समुदाय को इस योजना के तहत अपनी पसंद के पौधों का रोपण करना होगा। मुख्यमंत्री ने 'मेघा एडैप्ट पे, एडीबी' योजना के अंतर्गत 87

ग्राम रोजगार परिषदों को चेक वितरित किए, साथ पीएमकेएसवाई डब्ल्यूडीसी 2.0 योजना के अंतर्गत 3*7* सहायता समूहों को भी चेक प्रदान किए। इसके अलावा उन्होंने उत्तर गारो हिल्स के रंगमंग्रे गाँव में कोकनाल जल संचयन संरचना के निर्माण की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर मार्कुईस एन. मराक, माननीय मंत्री (मृदा एवं जल संरक्षण), डॉ. जोराम बेडा, आईएएस और संबंधित अधिकारी एवं समुदायजन

योजना के अंतर्गत 87

मिंडा कॉरपोरेशन का मुनाफा चौथी तिमाही में 26 प्रतिशत गिरकर 52 करोड़ रुपए रहा

बिजनेस रेमेडीज/

ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मंगलवार को वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए। जनवरी-मार्च अवधि में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 26.45 प्रतिशत गिरकर 52.03 करोड रुपए रह गया है। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 70.75 करोड़ रुपए था।

तिमाही आधार पर भी कंपनी के मुनाफे में 20 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 25 की दिसंबर तिमाही में कंपनी को 64.80 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। पूरे वित्त वर्ष 25 के लिए कंपनी का मुनाफा 255.37 करोड़ रुपए रहा है, जो कि 227.22 करोड़ रुपए था, जो 12.33 प्रतिशत की सालाना वृद्धि को दर्शाता है। मिंडा कॉरपोरेशन ने

ग्रक्यचेंज फाइलिंग में कहा कि वित्त वर्ष 25 की मार्च तिमाही में कंपनी की ऑपरेशंस से आय सालाना आधार पर 8.8 प्रतिशत बढ़कर 1,321.26 करोड़ रुपए हो गई है, जो कि इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 1214.98 करोड़ रुपए थी।

प्रतिशत का इजाफा हुआ है। वित्त वर्ष 25 की दिसंबर तिमाही में कंपनी की ऑपरेशंस से आय जनवरी-मार्च अवधि में कंपनी की कुल आय सालाना आधार पर 8.16 प्रतिशत बढकर 1,324.59 करोड़ रुपए हो गई है जो कि इससे पिछले वित्त वर्ष 1,224.78 करोड रुपए तिमाही आधार पर कंपनी की कुल आय 5 प्रतिशत बढ़ी है। वित्त वर्ष 25 की दिसंबर तिमाही में कंपनी की कल आय 1,261.65 करोड़ रुपए थी। पूरे वित्त वर्ष 25 के लिए कंपनी की कुल आय बढ़कर 5,056.22 करोड़ रुपए हो गई है, जो कि वित्त वर्ष 24 में 4,651.14 करोड रुपए थी। वित्तं वर्ष 25 की चौथी तिमाही में कंपनी का कुल खर्च 1,259.69 करोड़ रुपए था, जो कि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के आंकड़े 1,132.53 करोड़ रुपए से 11.22 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 25 में कंपनी का कुल खर्च बढ़कर 4,752.97 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि पिछले वित्त वर्ष में 4,358.40 करोड़

भारत में सामान्य से बेहतर मानसून की संभावना, बेहतक कृषि की उम्मीद

नई दिल्ली/आईएएनएस

विज्ञान (आईएमडी) ने 2025 के दक्षिण-पश्चिम मानसून के लिए अपना अद्यतन पूर्वानुमान जारी किया है, जो देश के लिए उत्साहजनक है। मंगलवार के जारी रिपोर्ट के अनुसार, जून से सितंबर तक आने वाले मानसन सीजन के दौरान भारत के अधिकांश हिस्सों में बारिश सामान्य से अधिक रहने की संभावना है।

पूरे भारत में बारिश दीर्घ अवधि औसत (एलपीए) का 106 प्रतिशत रहने की उम्मीद है जिसमें मॉडल त्रुटि मार्जिन ±4 प्रतिशत है। यह पूर्वानुमान उत्पादकता के अनुकूल मौसम और बेहतर जल उपलब्धता की उम्मीद जगाता है, हालांकि यह रिवलाफ तैयारियों को लेकर भी यह है कि मध्य और दक्षिण भारत के लिए मानसून का पूर्वानुमान काफी आशाजनक है, जो कृषि उत्पादकता के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जहां सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। उत्तर-पश्चिम भारत में सामान्य वर्षा होने की उम्मीद है। वहीं, पर्वोत्त भारत में सामान्य से कम वर्षा हो सकती है, जिससे क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र और कृषि के लिए कुछ चिंताएं पैदा हो सकती हैं। मानसन कोर जोन, जो भारत कषि क्षेत्रों को कवर करता है में भी सामान्य से अधिक वर्षा होने की तस्मीद है जो एक सफल खरीफ फसल के मौसम के लिए एक मजबत आधार प्रदान करेगा। जून 2025, मानसून का पहला महीना, पूरे देश में सामान्य से अधिक वर्षा होने की उम्मीद है। भारत के अधिकांश हिस्सों में

सामान्य से अधिक वर्षा होने की

संभावना है. दक्षिणी भारत के

पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर, जहां सामान्य से कम वर्षा होने की उम्मीद है। ये शुरुआती बारिश बुवाई कार्यों और भूजल स्तर के पुनः संरक्षित होने के लिए महत्वपूर्ण है। जून के लिए तापमान का पूर्वानुमान मिश्रित संकेत देता है। देश के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहने की उम्मीद है, लेकिन उत्तर-पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत के कई भागों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। मध्य भारत और उससे सटे दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों को खोडकर अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है जहां सामान्य से कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा संकता अच्छी बात यह है कि उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में हीटवेव वाले दिनों की संख्या सामान्य से

ऑनलाईन ट्रेड का होगा विरोध, रोड़मैप होगा तैयार

फैडरेशन ऑफ एसोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र द्वारा ऑल इण्डिया ट्रेड कॉन्फ्रेंन्स का आयोजन

जिससे अत्यधिक गर्मी क जोखिम कम हो जाएगा।

तक मेघालय को भारत के शीर्ष

10 राज्यों में स्थान दिलाया जाए। उन्होंने शिक्षा, आधारभूत

संरचना और पर्यटन के क्षेत्र में हो रहे सुधारों का उल्लेख किया

मौसम संबंधी उपविभागो द्वारा वर्षा पूर्वानुमानों का विस्तृत विवरण दर्शाता है कि 36 में से 34 उपविभागों में सामान्य से अधिक वर्षा होने की उम्मीद है। इसमें पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र. आंध्र प्रदेश, तमिलनाड और केरल जैसे प्रमुख कृषि क्षेत्र शामिल हैं। केवल अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय मे सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है, जबकि कुछ पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग सामान्य वर्षा हो सकती है। इससे फसल उत्पादन में वद्धि, सिंचाई और ग्रामीण आजीविका का समर्थन करने की उम्मीद है। हालांकि, मौसम विभाग की तरफ से अधिकारियों और लोगों से आग्रह किया है कि वे संवेदन-शील क्षेत्रों में बाढ़, जलभराव और भूस्खलन जैसी संभावित चुनौतियों के प्रति सतर्क रहें।

अंब्रुजा सीमेंट्स ने वर्षा जल संचयन के माध्यम से मारवाड़ मुंडवा में 3,400 ग्रामीण घरों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित की

बिज़नेस रेमेडीज/नागौर

विविधीकृत अदाणी पोर्टफोलियो की सीमेंट और निर्माण सामग्री कंपनी अंबुजा सीमेंट्स पर्यावरण की दिशा में सतत जल संरक्षण और प्रबंधन पहल के लिए प्रतिबद्ध है। मारवाड मंडवा और आस-पास के गांवों में, जहां पीने

के पानी तक पहुंच एक दैनिक संघर्ष थी. अंबजा सीमेंटस ने सीएसआर शाखा अंबुजा फाउंडेशन के माध्यम से छत पर वर्षा जल की शुरूआत की सुविधा प्रदान की है।

समुदाय-केंद्रित प्रयासों के माध्यम से. अंबजा सीमेंटस ने

3,410 से अधिक घरेलू स्तर के 🐠 एम. के. एक्जिम (इंडिया) लिमिटेड

69 हरितयां पद्म पुरस्कार से सम्मानित

बिज़नेस रेमेडीज/ नर्द दिल्ली/आर्दण्णनणम

राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक क्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मर्म ने कला, साहित्य, शिक्षा सार्वजनिक मामलों, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, खेल और उद्योग जैसे विविध क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले 69 कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी गहमंत्री शाह विदेश मंत्री एस . जयशंकर ने भाग लिया। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों मं से एक पद्म पुरस्कार तीन श्रेणिये में प्रदान किए जाते हैं: पदा भूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। इस साल सरकार ने गणतंत्र

दिवस की पूर्व संध्या पर कुल 139 पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की थी।

विकास और गरीब कल्याण के साथ समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है

आर्दण्णनण्य । उत्तर प्रदेश व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब अच्छी सरकार होती है तो वह विकास और गरीब कल्याण के कार्यक्र मों को तेजी से आगे बढ़ाते हुए समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। अच्छी सरकार सुरक्षा के बेहतर माहौल में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन मे सकारात्मक, विकासपरक और कल्याणकारी परिवर्तन लाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में विगत 11 साल से देश में और आठ साल से प्रदेश स्थापना को सक्षम किया है, जिससे लगभग 555 लाख लीटर सरक्षित पेयजल का भंडारण सुनिश्चित हुआ है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने 47 सामुदायिक स्तर की आरआर-डब्ल्यएचएस इकाइयों के निर्माण में सहायता की, जिससे क्षेत्र की

कार्यात्व : जी-1/150, गारमेंट जोन, ई.पी.आई.पी. सीतापुरा, टॉक रोड, जवपुर -30202 सीआईएन: L63040RJ1992PLC007111 नेल: mkeximBomai.com वेबसाइट: websils: www.mkexim.com TEL NO.0141-3937501

ेर गांवर प्राप्त एक विस्ताहर अरोबर अम्मणाविकारण है. 10.0 (वर्ग-135/30)

31 मार्च, 2026 को समाप्त निमार्गि और वित्तीय वर्ष के लिए
अंकेशित एकल (स्टेंडअलोन) वित्तीय परिणामों का सार रह तह वर्ष में
स्थान समाप्त समाप्

522.13 743.97 424.26 2460.88 2063.8

4036.73 4036.73 4036.73 4036.73 4036.73 - 4111.22 3924.99

हव 2797.34 2422.53 2158.50 /(हानि) (कर. अपवाद 522.13 743.97 424.26

347.98 556.67

की वृद्धि हुई। हर घर में स्वच्छ जल उपलब्ध कराकर, अंबुजा सीमेंट्स ने महिलाओं पर बोझ कम करने में मदद की है, युवा लड़िकयों को स्कूल लौटने में मदद की है, और 6,000 से अधिक घरों के जीवन की समग्र

परिवालनों से कुल आय अवधि हेतु बुद्ध लाम/(शनि) (कर, अपवाद तथा असाधारण गर्दी से पूर्व) अवधि हेतु बुद्ध लाम/(शनि) बन से पूर्व अवधि हेतु बुद्ध शाना/२०... (अरवाद तथा असाधारण मद्दे के बाद) अवधि हेतु बुद्ध तमा/(शही) वस पश्चात (अरवाद तथा असाधारण मद्दे के बाद)

बोर्ड के आदेश द्वारा एम. के. एक्जिम (इंडिया) सिमिटेड के लि हस्ताक्षर/-

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली

फैट्येशन ऑफ ग्रमोमिगशन्म ऑफ महाराष्ट्र द्वारा ऑल इण्डिया ट्रेड कॉन्फ्रेंन्स का आयोजन मुम्बई में वानखेड़े स्टेडियम स्थित चव्हाण सभागार में किया गया। आयोजन में निर्णय लिये गये कि ऑनलाईन ट्रेड तथा मेट्रो ट्रेड को भारत सरकार कानून ... बनाकर व्यवस्थित करें। बाजारों का व्यापार सुरक्षित रहना आवश्यक है। ऑनलाईन टेड को व्यवस्थित रखने के लिये निर्णय लिया गया कि इसके विरोध का एक रोड़मैप तैयार किया जायें। आयेजन में यह भी निर्णय लिया गया कि यह आयोजन व्यापारी समाज की एकजुटता तथा जागरूकता के लिये मील का पत्थर साबित हो। व्यापारी का पैसा यदि कोई गलत तरीके से हड़पता है तो उसकी प्राथमिक संस्था के अलावा पाम राज्य तर पर तथा राष्ट्रीय स्तर पर

बीयवीएम उसकी लडाई लडेगी

और पैसा हड़पने वाले का

बायकॉट राष्ट्रीय स्तर पर किया



समारोह में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील सिंघी, महाराष्ट्र के केबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, पूर्व केबिनेट मंत्री राजपरोहित ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। समारोह की अध्यक्षता बीयूवीएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलॉल गुप्ता ने की। समारोह के अग्रणी फैडरेशन ऑफएसोसिएशन्स ऑफमहाराष्ट्र के अध्यक्ष जुझारू नेता जितेन्द्र शाह रहे। समारोह में बीयूवीएम के वरिष्ठ महामंत्री मकन्द मिश्रा बीयूवीएम गवनिंग बॉडी के संयोजक प्रहलाद खण्डेलवाल व्यापारी कल्याण बोर्ड के सतीश चौहान. रमेश खण्डेलवाल. सुभाष गोयल, फाम के डायरेक्टर जनरल प्रीतेश शाह तथा शंकर ठकार, ग्रोमा के

अध्यक्ष भीमजी भानुशाली, वरिष्ट मार्गदर्शक नरसीमल जैन, प्रम के सचिव समीर एवं सशील कोठारी के साथ सैंकड़ों व्यापारियों ने भाग लिया। आयोजन में राजस्थान, पंजाब उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, दिल्ली गुजरात, कर्नाटका, उड़ीसा, गोवा, पश्चिमी बंगाला, असम, आन्ध्रप्रदेश एवं तमिलनाडू के अग्रणी नेताओं ने भी शिरकत की। महाराष्ट्र के सभी जिलों के अध्यक्ष मंत्री उपस्थित रहे। मुम्बई के सभी एसोसिएशन्स भी शामिल हुए। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील सिंघी ने व्यापारी समाज को 20 सूत्रीय स्वदेशी संकल्प की शपथ दिलाई। पाम के अध्यक्ष जितेन्द्र शाह ने कहा कि 'व्यापारी एक

रहेगा, तभी सरक्षित रहेगा'। यह एक सम्मेलन नहीं है अपितु व्यापारी समुदाय की मंशा की घोषणा है। परिवर्तन पथ अग्रसर हो चुका है। केबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि फाम की टीम व्यापारी समाज को एक नयी दिशा दे रही है। महाराष्ट्र सरकार फाम के साथ है।

भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने कहा कि जीएसटी के तीन सोपान होने चाहिये। शून्य श्रेणी में सभी खाद्य वस्तुएं शामिल हो; 5 प्रतिशत की श्रेणी में आवश्यकता की सभी वस्तुएं शामिल हो तथा 12 प्रतिशत की दर श्रेणी में सभी विलासिता की वस्तुएं शामिल की जायें। गुप्ता ने यह भी कहा कि पूरे भारत में जीएसटी की तरह 0.50 प्रतिशत की दर से हर कमोडिटी पर कृषि मण्डी टैक्स लगाया जायें, जो सारे देश के लिये लागू हो। एक प्रांत में मण्डी टैक्स चकाकर दसरे प्रांत में मण्डी टैक्स की दर जीएसटी की तरह लागत बढ़ने पर ही संधारित हो। ऑनलाई ट्रेड और मेरो टेड को केन्द्र सरका व्यवस्थित करें। बाजारों में बैठे व्यापारी ऑनलाईन ट्रेड कानून के अभाव में बेरोजगार हो रहे हैं; आत्महत्याएं करने को अग्रसर हे रहे हैं तथा दिवालिया हो रहे हैं; इन्हें बचाया जायें। नासिक गोदावरी नदी किनारे

संकल्प : बीयूवीएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने नासिक शहर के व्यापारियों के साथ गोदावरी (नदी) की पूजा अर्चना की। महाआरती में भाग लेते हुए गोदावरी नदी के तट पर व्यापारियों को संकल्प दिलाया कि ऑनलाई ट्रेड तथा मेट्रो ट्रेड को केन्द्र सरकार व्यवस्थित नहीं करती है तो एक संघर्ष सेना का गठन किया जायेगा और ऑनलाईन ट्रेड का कड़ा विरोध किया जायेगा। गुप्ता ने गोदावरी तट पर उपस्थित सभी व्यापारियों के साथ देश के व्यापारियों से निवंदन किया कि वे संकल्प ले कि जब तक ऑनालाईन ट्रेड को व्यवस्थित करने के लिये केन्द्र सरकार कानून नहीं बनायेगी तब तक ऑनाईन ट्रेड का विरोध

किया जायेगा।

अच्छी सरकार : सीएम बिज़नेस रेमेडीज/ गोरखपुर/

में यही परिवर्तन देखने को मिल रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (खाद कारखाना) के परिसर में 1200 जोड़ों के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह को संबोधित कर रहे थे। योगी सरकार ने सामूहिक विवाह योजना में प्रति जोड़ा खर्च 51 हजार रुपये से बढांकर एक लाख रुपये कर दिया है और बढ़ी हुई धनराशि के साथ आज यह पहला

गणपति प्लास्टफैब लिमिटेड

5	विवरण	f	तेमाही समाप्त	वर्ष समाप्त		
5		31-03-2025 लेखापरीवित	31-12-2024 अलेखामरीक्रित	31-03-2024 ਲੇਗਾਪੀਤਿਕ	31-03-2025 लेखापरीक्षित	
ij	कुल परिचालन आय	2,370.66	2.093.45	2,084.88	7,800.59	7,933.57
1	अवधि के लिए शुद्ध लाम/ (हानि) (कर असाधारण और/वा असामान्य वस्तुओं के पहले)	(16.49)	(72.05)	(140.30)	(370.53)	(607.46)
8	अवधि के लिए कर के पहले शुद्ध लाम/ (हामि) (असाधारण और/या असामान्य वस्तुओं के बाद)	(18.49)	(72.05)	(140.30)	(370.53)	(607.46)
	अवधि के लिए शुद्ध लाम/ (शनि) (कर, असाधारण और/या असामान्य वस्तुओं के बाद)	(27.10)	(106.15)	(152.04)	(319.91)	(499.14)
5	अवधि के लिए कुल आय	(27.10)	(106.15)	(154.20)	(319.91)	(501.30)
	समता अंश पूंजी	266.06	266.06	266.06	266.06	266.06
	रिजर्व (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)	1	4-	120	557.74	877.65
3	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का अधित मूल्य) मूल एवं तरल	(1.02)	(3.99)	(5.80)	(12.02)	(18.76)